

सं. 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक में खाते रखने वाले राज्य सहकारी बैंक

(करोड़ रुपए)

नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के मामले में)/अंतिम शुक्रवार/ सूचना देने के लिए नियत शुक्रवार	1990-91	2006-07	2007-08	2008						2009		
				फर.	अगस्त	सितं.	अक्तू.	नव.	दिसं.	जन.	फर. 13	फर. 27
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
सूचना देनेवाले बैंकों की संख्या	28	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
मांग और मीयादी देयताएं												
कुल जमाराशि (1)	2,152	17,105	19,611	19,421	20,563	20,827	20,805	21,010	21,001	21,261	21,571	21,868
मांग देयताएं	1,831	7,324	6,636	6,379	7,261	7,566	6,880	7,105	7,035	7,166	7,217	7,243
जमाराशि												
अंतर-बैंक	718	1,921	1,539	1,437	1,408	1,204	1,371	1,727	1,872	1,805	1,536	1,557
अन्य	794	3,571	3,628	3,517	3,675	3,721	3,849	3,758	3,718	3,738	3,862	3,879
बैंकों से उधार	181	914	428	475	807	1,333	303	338	242	260	290	324
अन्य	139	918	1,041	951	1,371	1,309	1,356	1,282	1,202	1,362	1,529	1,483
मीयादी देयताएं	3,963	39,425	47,523	46,141	50,096	50,353	51,261	51,749	52,513	54,661	56,028	56,915
जमाराशि												
अंतर-बैंक	2,545	25,540	31,111	29,794	32,754	32,764	33,769	34,004	34,732	36,619	37,826	38,420
अन्य	1,359	13,534	15,983	15,904	16,888	17,106	16,955	17,252	17,283	17,523	17,709	17,990
बैंकों से उधार	—	10	8	8	8	16	8	8	7	7	7	7
अन्य	59	341	421	435	446	467	529	486	490	512	487	498
रिज़र्व बैंक से उधार	15	—	—	24	2	22	—	—	19	—	—	—
स्टेट बैंक तथा/अथवा किसी अधिसूचित बैंक (2) और राज्य सरकार से उधार	1,861	13,639	13,988	13,024	12,735	13,340	11,214	11,639	11,322	10,338	10,778	11,462
मांग	116	3,292	3,378	2,854	3,314	3,279	3,120	3,189	2,922	2,769	3,018	3,290
मीयादी	1,745	10,347	10,610	10,170	9,421	10,061	8,094	8,450	8,400	7,570	7,761	8,172
आस्तियाँ												
उपलब्ध नकदी तथा रिज़र्व बैंक के पास शेष	334	3,054	3,639	3,605	4,495	4,453	3,687	3,089	2,962	2,824	2,840	2,845
उपलब्ध नकदी	24	153	143	146	149	154	158	149	156	143	136	145
रिज़र्व बैंक के पास शेष	310	2,900	3,496	3,459	4,346	4,299	3,529	2,941	2,806	2,681	2,704	2,699
अन्य बैंकों के पास चालू खाता शेष	93	486	486	406	424	440	449	514	377	473	412	413
सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश (3)	1,058	14,146	16,806	16,808	18,907	17,401	17,996	17,970	18,053	18,567	18,993	18,940
मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	498	6,749	7,855	7,967	7,280	7,723	10,410	12,005	11,939	10,554	12,631	13,628
बैंक ऋण (4)	2,553	17,017	17,345	16,173	17,306	17,169	16,855	16,563	17,201	18,461	18,663	18,901
अग्रिम												
ऋण, नकदी ऋण तथा ओवरड्राफ्ट	2,528	17,001	17,336	16,164	17,298	17,163	16,846	16,555	17,194	18,451	18,652	18,891
बैंक से प्राप्य (5)	5,560	30,098	32,466	31,395	31,717	32,976	29,357	28,620	28,443	27,674	27,227	27,193
खरीदे और भुनाए गए बिल	25	16	9	9	8	6	9	7	7	10	10	10
नकदी - जमा अनुपात	15.5	17.9	18.6	18.6	21.9	21.4	17.7	14.7	14.1	13.3	13.2	13.0
निवेश - जमा अनुपात	49.2	82.7	85.7	86.5	91.9	83.5	86.5	85.5	86.0	87.3	88.0	86.6
ऋण - जमा अनुपात	118.6	99.5	88.4	83.3	84.2	82.4	81.0	78.8	81.9	86.8	86.5	86.4

‘सारणी संबंधी टिप्पणी’ देखें।